



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 6—सितम्बर 12, 2008 (भाद्रपद 15, 1930)

No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 6—SEPTEMBER 12, 2008 (BHADRA 15, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

### [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व सहायक आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधानमंत्री कार्यालय

नई दिल्ली—110001, दिनांक 19 अगस्त 2008

सं. ए-22017/1/2008-पीएमए-सशस्त्र सेना मुख्यालय आनुलिपिक सेवा के निजी सचिव और प्रधान मंत्री के वैयक्तिक स्टाफ में निजी सचिव के रूप में नियुक्त श्री अरुण कुमार ने दिनांक 19 अगस्त, 2008 (अपराहन) से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

पी. के. राय, उपसचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 अगस्त 2008

सं. आर.एस./3/8(1)/2008/54-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत सुरक्षा अधिकारी, श्री नीरज तिवारी को दिनांक 21 अगस्त, 2008 के पूर्वान्त से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में नियमित आधार पर 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में सहायक निदेशक (धुरक्षा) के ग्रेड में स्थापना रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

सी. बी. राय, संयुक्त निदेशक

सं. आर.एस./4/5(1)/2008/55-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने श्री नितिन प्रताप सिंह को 21 अगस्त, 2008 के पूर्वान्त से आगामी आदेशों तक राज्य सभा सचिवालय में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में नियमों के अधीन प्रारंभ सामान्य भत्तों सहित अस्थायी कनिष्ठ संसदीय भ्रमण-तरकार (पंजाबी) के रूप में नियुक्त किया है।

सी. बी. राय, संयुक्त निदेशक

दिनांक 22 अगस्त 2008

सं. आर.एस./3/1/1/2008/56-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत अधिशास्त्र अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद सुक्ला को 22 अगस्त, 2008 के पूर्वान्त से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में नियमित आधार पर 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में सहायक निदेशक के ग्रेड में स्थापना रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति रिट याचिका सं. 3025/88 के अंतिम निपटरे के समय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अधधीन होगी।

सी. बी. राय, संयुक्त निदेशक

## अन्तरिक्ष विभाग

बैंगलूर-560094, दिनांक 11 अगस्त 2008

सं. 3/1(1)/2008-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों और दिनांक के पूर्वार्ह से आगामी आदेश तक पदेनिति पर नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	पद जिस पर पदेनिति की गई	पदेनिति का दिनांक
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	लिविंग्स्टन नाक्स.टी	वरिष्ठ क्रय व भण्डार अधिकारी	19.05.2008
2.	के. राजशेखरन	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	01.07.2008

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 3/1(2)/2008-I--अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दिये गये पद से दिनांक 31.05.2008 के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है :-

क्र. सं.	नाम	पद
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	एम. मुरुगानन्दम	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच
2.	पी. एम. रवीन्द्रनादन नायर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. एफ
3.	वी. सुरेन्द्र पणिकर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. डी
4.	मोहन दास के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. डी

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 3/1(2)/2008-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों एस.सी. का सेवा से त्यागपत्र प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के अपराह्न से स्वीकार करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	त्याग पत्र की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	रुचि राणी	02.07.2008
2.	श्वेता अग्रवाल	04.07.2008
3.	राकेश अग्रवाल	04.07.2008
4.	निखिल कृष्णन	10.07.2008
5.	अरुण जी.	18.07.2008

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 4/1(2)/2008-I--श्री प्रसाद राव डी.एस.आर.सी. ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप अन्तरिक्ष विभाग के सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र, शार, श्रीहरिकोटा में वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई. के पद का कार्यभार दिनांक 31.05.2008 के अपराह्न से छोड़ दिया है।

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

सं. 11/1(1)/2008-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के सी.एम.डी./इसरो मु., बैंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस.डी. को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस.ई. के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.07.2008 के पूर्वार्ह से आगामी आदेश तक पदेनिति पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम
	श्री/श्रीमती/कु.
1.	तरुण कान्ती वर्मन
2.	पी. एस. कुमारस्वामी

के. एस. रामचन्द्र, उप सचिव

## गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 अगस्त 2008

सं. 14016/1/2008-यूटीएस-II--संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली (पुलिस सेवा) नियम, 2003 के नियम 10 के उप नियम (1) के साथ पठित नियम 7 के उप नियम (2) के खंड (ग) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली की पुलिस सेवा के प्रविष्टि ग्रेड में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	रैंज संख्या	जन्म की तारीख
	(सर्व/श्री)		
1.	तेजपाल सिंह	डी-1/335	01.12.1948
2.	अवतार सिंह परमार	डी-1/486	02.02.1950
3.	जगजीर सिंह	डी-1/489	02.02.1952
4.	विजेन्द्र सिंह पुंडीर	डी-1/565	05.01.1954
5.	सुम्मेर सिंह	डी-1/595	22.03.1951
6.	देवराज (एस सी)	डी-1/676	01.07.1951

2. दानिप्स के प्रविष्टि ग्रेड में ऊपर उल्लिखित छः निरीक्षकों की नियुक्ति सीडब्ल्यूपी सं. 4210/2007 जगदीश चंद बनाम भारत संघ एवं अन्य तथा सीडब्ल्यूपी सं. 11356-62/2006-जे. के. जैन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के परिणाम के अधधीन होगी।

जे. के. सिंह, डेस्क अधिकारी

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 अगस्त, 2008

सं. 14046/10/2000-यूटीएस-I--राष्ट्रपति, अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम 16 (2क) के अनुसार संयुक्त अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम- संघ शासित क्षेत्र संघर्ष के 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी श्री प्रकाश कुमार को दिनांक 22 अगस्त, 2008 के अपराह्न से सेवा से स्वीच्छक सेवानिवृत्ति लेने की सहर्ष अनुमति प्रदान करती है।

बलदेव राज, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 2008

सं. 14011/1/2006-एसआर (पाठ)--इस मंत्रालय की दिनांक 18.01.2008 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में श्री के. एन. मंजुनाथ, उप निदेशक, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली की उप सचिव, क्षेत्रीय परिषद् सचिवालय, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पद प्रतिनियुक्ति की अवधि को एतद्वारा दिनांक 01.07.2008 से 31.07.2008 तक एक महीने की अवधि के लिए बढ़ाए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सुमिता मुखर्जी, निदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 अगस्त 2008

सं. I-18011/5/2008-आईपीएस-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एजीएमयूटी संघर्ष के भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के आगे उल्लिखित तारीखों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	स्थायी करने की तारीख
	सर्व/श्री	
1.	श्री पी. करुणाकरण आईपीएस (एजीएमयूटी : 2004)	06.09.2006
2.	श्री एन. ज्ञानसम्बंदन आईपीएस (एजीएमयूटी : 2004)	06.09.2006

राजेंद्र कुमार, अनुभाग अधिकारी

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 अगस्त 2008

सं. ए-32013/1/2008-प्रशा. I (जी)--राष्ट्रपति, श्री यत्नेन्द्र कुमार, भा.प्र.से. (एमटी-96) को 28 जुलाई, 2008 (पूर्वाह्न) से उनके सेवाकाल की शेष अवधि के लिए, अर्थात् 26.07.2010 तक, अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में उप सचिव के रूप में नियुक्त करती है।

वी. के. वेलुकट्टी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 2008

सं. 39019/04/2008-स्थापना(ख)--राष्ट्रपति, श्री प्रशान्त कुमार मिश्रा को दिनांक 18 अगस्त, 2008 (पूर्वाह्न) से संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्रीमती सती मोहनदास, अवर सचिव

सं. 39019/02/2007-स्थापना(ख)--अधिबर्धिता की आयु प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप श्री सुबीर दत्ता ने दिनांक 16 अगस्त, 2008 (अपराह्न) से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद त्याग दिया है।

श्रीमती सती मोहनदास, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 14012/09/2005-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पश्चिम बंगाल राज्य संघर्ष के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	बैच	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्रीमती मनवीत नन्दा	2000	14.12.2003
2.	श्री अश्विनी कुमार यादव	2001	02.09.2003
3.	श्री सलीम पी. बी.	2001	02.09.2003

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

कार्यालय: प्रोतोकोल उप-प्रमुख(एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 2008

सं. डी-III/460/सी एफ-05/2008--भारत की राष्ट्रपति ने श्री जी. जी. झलमिया की कोलकाता में मंगोलिया के मानद कौंसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

श्री जी. जी. झलमिया के कौंसली क्षेत्राधिकार में पश्चिम बंगाल राज्य होगा।

डी. के. शर्मा, प्रोतोकोल उप-प्रमुख(एफ)

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 2008

सं. ए-22011/1/2008-प्रशा. I ए--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा के अकार्यात्मक चयन ग्रेड के अधिकारी श्री रोहित कुमार परमार (आईईएस) को दिनांक 18 जुलाई, 2008 के पूर्वाह्न से और अगले आदेश तक 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में अपर आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

(वित्तीय सेवाएँ विभाग)

दिनांक 18 जुलाई 2008

नई दिल्ली, दिनांक 11 अगस्त 2008

सं. 13/5/2003-डीआरटी--श्री के. पी. जॉन, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण एर्णाकुलम दिनांक 10 अगस्त, 2008 (अपराह) से पीठासीन अधिकारी का पद छोड़ देंगे।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री बी. एस. रवि, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-1, चैन्नई को अपने प्रभार के अतिरिक्त, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, एर्णाकुलम का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

बी. पी. भारद्वाज, निदेशक

दिनांक 12 अगस्त 2008

सं. ए-19012/12/2006-डीआरटी--बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री डी. स्टेनली डेविड, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, मदुरै, को दिनांक 04.08.2008 से दो माह की अवधि के दौरान, अपने कार्यभार के साथ-साथ, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, कोयम्बटूर का कार्यभार भी संभालने के लिए प्राधिकृत करती है।

बी. पी. भारद्वाज, निदेशक

सं. 13/9/2003-डीआरटी--श्री चंदन कुमार लाहिड़ी, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण इलाहाबाद, दिनांक 31 अगस्त, 2008 (अपराह) से पीठासीन अधिकारी का पदभार छोड़ देंगे।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री ए. के. त्रिपाठी, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-1, दिल्ली को अपने पदभार के साथ-साथ, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, इलाहाबाद, का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

बी. पी. भारद्वाज, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 2008

सं. ए-19014/10/2008-डीआरटी--केन्द्र सरकार, डॉ. ओ. ए. चेडेकर, अनुभाग अधिकारी, रक्षा मंत्रालय को प्रतिनियुक्ति आधार पर, 10,000-325-15,200/- रूपए का वेतनमान में, दिनांक 02.06.2008 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण पुणे में वसूली अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

सं. ए-19013/8/2007-डीआरटी--केन्द्रीय सरकार, श्री ओ. वेंकटेश्वरु, सहायक सरकारी विधि परामर्शदाता, विधि कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय को दिनांक 20.12.2007 (अपराह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, 12,750-375-16,500/- रूपए के वेतनमान में, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण के पंजीयक के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

दिनांक 29 जुलाई 2008

सं. ए-15012/5/2007-डीआरटी--बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 11 के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, न्यायमूर्ति जतिनंदर मोहन मलिक, न्यायाधीश (सेवानिवृत्त), दिल्ली उच्च न्यायालय, को 21 जुलाई, 2008 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

दिनांक 14 अगस्त 2008

शुद्धिपत्र

सं. 13/5/2003-डीआरटी--श्री के. पी. जॉन, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण एर्णाकुलम से संबंधित दिनांक 11 अगस्त, 2008 की अधिसूचना सं. 13/5/2003-डीआरटी में, दूसरी पंक्ति में दिनांक 10 अगस्त, 2008 (पूर्वाह्न) को 11 अगस्त, 2008 (पूर्वाह्न) पढ़ जाए।

ए. थॉमस, अवर सचिव

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 फरवरी 2008

सं. ए 19012/626/84-स्था.1--केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) (ग्रेड-I एसएल: 2002) के नियमित ग्रेड-1 अधिकारी तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में अवर सचिव के रूप में कार्यरत श्री वर्गीस मथाई अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर वे दिनांक 29 फरवरी, 2008 की अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो जाएंगे।

बी. भारद्वाज, अवर सचिव

दिनांक 10 मार्च 2008

सं. ए 19011/721/2008-स्था.1--राष्ट्रपति, श्री डॉ. अर. एस. चौधरी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (मध्य प्रदेश 77) को दिनांक 01 मार्च, 2008

की पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार नियुक्त करते हैं।

पी. भारद्वाज, अपर सचिव

दिनांक 23 मई 2008

सं. ए 19012/868/91-स्था.1--राष्ट्रपति वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में नियमित अनुभाग अधिकारी श्री जॉनसन सेम्युअल [चयन सूची वर्ष-1990 (रैंक सं. 36) विभागीय परीक्षा कोट] को 01 जनवरी, 2008 के पूर्वाह्न से सरकारी सेवा से स्वेच्छिक रूप से सेवा निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

पी. भारद्वाज, अपर सचिव

दिनांक 4 जून 2008

सं. ए 12023/04/2006-स्था.1--राष्ट्रपति, प्रशासनिक सुधार तथा जन शिकायत विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नियमित ग्रेड-I अधिकारी (अपर सचिव - एक्स्पेंस 99), श्री डेनियल ई. रिचर्ड्स को दिनांक 02 जून, 2008 पूर्वाह्न से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में तदर्थ आधार पर उप सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा का चयन ग्रेड) नियुक्त करते हैं।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड में उक्त अधिकारी की तदर्थ पदोन्नति से उन्हें ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में नाम सम्मिलित करने अथवा ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा जो आगे दिनांक 14 मई, 2008 के कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 04/04/2008-सीएस-I (डी) में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा।

पी. भारद्वाज, अपर सचिव

दिनांक 8 जुलाई 2008

सं. ए 22012/1/2008-स्था.1--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित प्रधान निजी सचिवों को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में 12,000--16,500/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 01 जुलाई, 2008 से 31 दिसम्बर, 2008 तक अथवा पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पूर्णतया तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

श्री एल. एन. बजाज

श्री रतन सिंह

2. वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में अधिकारियों की पदोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और अधिकारियों को ग्रेड में अनिश्चित समय

तक बने रहने अथवा वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

पी. भारद्वाज, अपर सचिव

दिनांक 31 जुलाई 2008

सं. ए 19011/460/94-स्था.1--वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, में तदर्थ आधार पर औद्योगिक सहायक (ईजी.) के रूप में कार्यरत नियमित विकास अधिकारी श्री ए. के. संघी, 31 जुलाई, 2008 अपराह्न से अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो जायेंगे।

पी. भारद्वाज, अपर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 2008

सं. 15/2006(.) फा.सं.ए-46011/9/2007-स्था.(.)--राष्ट्रपति, विभागीय पदोन्नति समिति/संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर, श्री आर. एन. वानखेडे, एक नियमित लागत अधिकारी को 3 अप्रैल, 2008 (पूर्वाह्न) से वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, मुम्बई में 8,000--13,500/- रुपये के वेतनमान में पदोन्नति के आधार पर सहायक निदेशक ग्रेड I (लागत) (समूह क, राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं। वे 03.04.2008 (पूर्वाह्न) से दो वर्षों की अवधि के लिए जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है, परीक्षा पर रहेंगे।

बलबीर सिंह, अपर सचिव

दिनांक 21 अगस्त 2008

सं. 14/2008(.) फा.सं.ए-46011/19/2005-स्था.(.)--राष्ट्रपति, श्री महेश्वर चौधरी को 12 जून, 2008 (पूर्वाह्न) से वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, मुम्बई में 8,000--13,500/- रुपये के वेतनमान में सहायक निदेशक ग्रेड I (गैर-तकनीकी) (समूह क, राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं। वे 12.06.2008 (पूर्वाह्न) से दो वर्षों की अवधि के लिए जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है, परीक्षा पर रहेंगे।

बलबीर सिंह, अपर सचिव

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय

मुम्बई-400020, दिनांक 11 अगस्त 2008

सं. 5(32)/2008/स्था-एक/73--वस्त्र आयुक्त द्वारा, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर, श्री कृष्ण वाफ्कंदी एक नियमित तकनीकी अधिकारी को 1 जून, 2007 (पूर्वाह्न) से वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, मुम्बई में 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में पदोन्नति के आधार पर सहायक निदेशक ग्रेड II (तकनीकी) (समूह ख, राजपत्रित) के पद पर नियुक्त किया जा रहा है। वे 01.06.2007

(पूर्वाह्न) से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है।

जे. एस. रावत, निदेशक (प्रशासन)

-----

सं. 5(32)/2008/स्था-एक/74--वस्त्र आयुक्त द्वारा, संय लोक सेवा आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर, श्री सिधेश्वर डोबे को 3 अक्टूबर, 2007 (पूर्वाह्न) से वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, मुम्बई में 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में सहायक निदेशक ग्रेड II (तकनीकी) (समूह ख, राजपत्रित) के पद पर नियुक्त किया जाता है। वे 03.10.2007 (पूर्वाह्न) से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है।

जे. एस. रावत, निदेशक (प्रशासन)

-----

सं. 5(32)/2008/स्था-एक/75--वस्त्र आयुक्त द्वारा, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर, श्री अमितवा सिन्हा, एक नियमित तकनीकी अधिकारी को 1 फरवरी, 2008 (पूर्वाह्न) से वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, मुम्बई में 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में पदोन्नति के आधार पर सहायक निदेशक ग्रेड II (तकनीकी) (समूह ख, राजपत्रित) के पद पर नियुक्त किया जाता है। वे 01.02.2008 (पूर्वाह्न) से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है।

जे. एस. रावत, निदेशक (प्रशासन)

-----

सं. 5(32)/2008/स्था-एक/76--वस्त्र आयुक्त द्वारा, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर, श्री एस. एस. दहिया, एक नियमित तकनीकी अधिकारी को 1 फरवरी, 2008 (पूर्वाह्न) से वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, मुम्बई में 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में पदोन्नति के आधार पर सहायक निदेशक ग्रेड II (तकनीकी) (समूह ख, राजपत्रित) के पद पर नियुक्त किया जाता है। वे 01.02.2008 (पूर्वाह्न) से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है।

जे. एस. रावत, निदेशक (प्रशासन)

-----

सं. 5(32)/2008/स्था-एक/77--वस्त्र आयुक्त द्वारा, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर, श्री जी. कुमारवेल, एक नियमित तकनीकी अधिकारी को 1 मार्च, 2008 (पूर्वाह्न) से वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, मुम्बई में 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में पदोन्नति के आधार पर सहायक निदेशक ग्रेड II (तकनीकी) (समूह ख, राजपत्रित) के पद पर नियुक्त किया जाता है। वे 01.03.2008 (पूर्वाह्न) से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है।

जे. एस. रावत, निदेशक (प्रशासन)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 2008

सं. ए-12011/2/2008-प्रशा.-राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16 जुलाई, 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/5/2008-ई ओ (एम एम-1) के अनुसरण में श्री वृज मोहन, आई ए एंड ए एस (1995) को 06.08.2008 के पूर्वाह्न से चार वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, उपभोक्ता मामले विभाग में 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. एल. वशिष्ठ, उप सचिव

-----

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 अगस्त 2008

सं. ए-11013/3/2004-स्था.-I--राष्ट्रपति, श्री दीनानाथ पांडेय, भा.प्र.से.(गुजरात:85) को निदेशक स्तर पर 15,100-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 5 अगस्त, 2008 के पूर्वाह्न से राज्य मंत्री (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण) (श्री तस्लीमुद्दीन) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं। श्री पाण्डेय की यह नियुक्ति मंत्री जी के कार्यकाल के अनुसार 5 वर्ष की अवधि के लिए या उनके मंत्री महोदय के निजी सचिव के रूप में कार्य करने तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

-----

दिनांक 12 अगस्त 2008

सं. ए-32013/2/2008-स्था.-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नियमित अवर सचिव श्री एम. जयरामन को 30 जुलाई, 2008 के पूर्वाह्न से खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में उपसचिव (तदर्थ) के रूप में नियुक्त करते हैं।

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 21 अगस्त 2008

सं. पृ.वि.मं./11/4/2006-स्था.--गृह मंत्रालय को दिनांक 20 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 14046/10/2000-यूडीएस I के अनुसरण में इस मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री प्रकाश कुमार, आईएएस, एजीएमयूडी (1985), अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु और सेवा निवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 के नियम 16 (2) (ए) के अनुसार 22 अगस्त, 2008 के उपराहन से स्वैच्छिक रूप से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

कृष्ण कुमार, अवर सचिव

## पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 अगस्त 2008

सं. ए.-12012/12/2003-पी. II (-)--राष्ट्रपति, श्री सुरेश प्रसाद चौबे को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में निदेशक (राजभाषा) के रूप में 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में 1 अगस्त, 2008 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

प्रेमा मोहन, अवर सचिव

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 13 अगस्त 2008

सं. ए. 12025/24/2007-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. धीरज गुप्ता को दिनांक 21.11.2007 के पूर्वाह्न से आगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ. धीरज गुप्ता को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है। डॉ. धीरज गुप्ता दो वर्षों की अवधि तक परीक्षा पर रहेंगे।

श्रीमती माया प्रकाश, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 14 अगस्त 2008

सं. ए. 12025/21/2007-सी.एच.एस. IV--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. (श्रीमती) मोनिका चौधरी को 28 सितम्बर, 2007 के पूर्वाह्न से आगले आदेशों तक एक वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में विशेषज्ञ ग्रेड II (सूक्ष्म जीव विज्ञान) के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

बी. पी. राणा, अवर सचिव

दिनांक 26 अगस्त 2008

सं. ए. 12025/40/2006-सी.एच.एस. III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. (श्रीमती) ज्योति कुमार को 21 मार्च, 2007 के पूर्वाह्न से आगले आदेशों तक एक वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में 10,000-18,200/- रुपये के वेतनमान में विकिरण निदान की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

बी. पी. राणा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 अगस्त 2008

सं. ए.-32012/2/07-सी.एच.एस.-VI--इस मंत्रालय के दिनांक 11 मार्च, 2008 के समसंख्यक आदेश के तहत स्टाफ सर्जन (डेंटल) को पद पर अपनी पदोन्नति हो जाने के परिणामस्वरूप सफरदर्ज

अस्पताल में तैनात डॉ. देवीपदा कवि ने दिनांक 01.11.2007 (अपरह्न) से जूनियर स्टाफ सर्जन (डेंटल) (10,000-325-15,200/- रुपये) के पद का कार्यभार छोड़ दिया है और 02.11.2007 (पूर्वाह्न) से 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में स्टाफ सर्जन (डेंटल) के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

फवन कुमार, अवर सचिव

## (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 13 अगस्त 2008

सं. ए. 19014/14/2008-स्वा.-I--कार्यिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10 अप्रैल, 2008 के आदेश सं. 5/01/2008-सीएस-I(डेस्क) के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I (अवर सचिव) में तदर्थ आधार पर प्रोन्नति होने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री मनोज कुमार मिश्रा को 7 जुलाई, 2008 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में अवर सचिव के रूप में पूर्णतया तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं :-

2. तदर्थ प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

- तदर्थ प्रोन्नति से इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या निश्चित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने या ग्रेड I में चरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा।
- तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय कोई भी कारण बताए बगैर समाप्त किया जा सकता है।
- जिन अधिकारियों ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा का 'घ' स्तरीय प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है/नहीं लिया है उनके लिए दो वर्ष की अवधि के भीतर 'घ' स्तरीय प्रशिक्षण लेना और सफलतापूर्वक पूरा करना अपेक्षित होगा।
- इसके अतिरिक्त उपर्युक्त नियुक्ति एम.ए.सं. 2170/2006, ओ.ए.सं. 2793/2005, एच.ए.सं. 2710/2005 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के दिनांक 11.01.2007 के आदेश के अधीन होगी।

अरविंद कुमार, अवर सचिव

## कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 2008

सं. 19011/421/2008-स्वा. II/स्वा. V--राष्ट्रपति भारतीय सौखिनकी सेवा के चरिष्ठ सचिव वेतनमान (एस टी एस) के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में तदर्थ आधार पर श्री ए. के. ओझा की पदोन्नति के फलस्वरूप उनको इस विभाग में 27.06.2008 के पूर्वाह्न से 12,000-16,500/- रुपये के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (कृषि-संगणना) के पद पर नियुक्त करते हैं।

के. संजयन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त 2008

सं. ए-19012/5/2002-ईए-राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा (आई ई एस) के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एस ए जी) स्तर के अधिकारी श्री पी. एन. अन्सारी को 18,400-22,400/- के वेतनमान में 16 जुलाई, 2008 के पूर्वाह्न से कृषि एवं सहकारिता विभाग में सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. के. राय, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 2008

सं. 6-1/2003-आई.एन.एम.-राष्ट्रपति, श्री आर. पी. सिंह, 6,500-10,000/- रुपये के वेतनमान में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, आर. सी.ओ.एफ. इम्फाल की राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र (पुराना नाम राष्ट्रीय जैव खर्वक विकास केन्द्र) गाजियाबाद में रुपये 8,000-27.5-13,000/- के वेतनमान में सहायक निदेशक (पुराना नाम सहायक सूक्ष्म जैव विज्ञानी) (सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप 'ए' राजपत्रित गैर मंत्रालयी) के पद पर तदर्थ नियुक्ति को 03-08-2008 पूर्वाह्न से 6 महीनों के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ते हैं।

बी. जे. भट्टाचार्य, उप सचिव

बागवानी प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. 20-16/200 बा. IV--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, श्रीमती पी. प्रेमजा का कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के अधीन सुपारी और विकास निदेशालय, कालीकट में वेतनमान रु. 8,000-13,500/- में अनुसंधान अधिकारी (Research Officer) के पद पर 5वें वर्ष में या आर. आर. में दिये गये समय से 2रे वर्ष के अतिरिक्त समय में 16 जुलाई, 2008 से 15 अक्टूबर, 2008 तक के लिए या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति समय बढ़ाया जाता है।

डी. आर. के. राय, अवर सचिव

कृषि लागत और मूल्य आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 2008

सं. 2-6/2008-प्रशा.--निजी सचिव (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह ख राजपत्रित) के पद पर नियुक्ति होने के परिणामस्वरूप, श्रीमती नेमिता मेहता ने 12 अगस्त, 2008 के पूर्वाह्न से कृषि लागत और मूल्य आयोग में 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर निजी सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

ए. के. जेना, निदेशक

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 अगस्त 2008

सं. 2-12/2008-मात्स्यिकी (प्रशासन)--राष्ट्रपति, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई ब्रेस के श्री के. एन. वी. नायर, क्षेत्रीय निदेशक को

अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.07.2008 (अपरह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 2008

सं. ए-19011/245/2008-स्था. V प्रशासन-I--राष्ट्रपति डॉ. ए. वी. नेगी, संयुक्त आयुक्त (पशुपालन) को 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ नियुक्ति को बढ़ाते हैं, 03.04.2008 से 02.10.2008 तक छह माह की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो।

पी. एल. मीना, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 21 अगस्त 2008

सं. 16011/2/2002-एससीडी-IV--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 56 के अनुसार श्री पी. के. सिन्हा, अवर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को श्री संजीव कुमार मित्तल के स्थान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के निदेशक मंडल में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक शासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. एस. मीना, निदेशक

सं. 16011/2/2002-एससीडी-IV--राष्ट्रपति, इस मंत्रालय को दिनांक 04.03.2008 की अधिसूचना सं. 16011/02/2002-एससीडी-IV के आंशिक संशोधन में श्री डी. पी. भगद्वाज, उप सचिव, के स्थान पर श्री एल. के. मीना, उप सचिव को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के निदेशक मंडल में शासकीय निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

आर. एस. मीना, निदेशक

दिनांक 25 अगस्त 2008

शुद्धिपत्र

सं. 16011/2/2002-एससीडी-IV--इस मंत्रालय के दिनांक 21.08.2008 की अधिसूचना सं. 16011/2/2002-एससीडी-IV के आंशिक संशोधन करते हुए तीसरी पंक्ति में 'श्री एल. के. मीना उप सचिव' को 'श्री एल. के. मीना, उप सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय' पढ़ा जाए।

आर. एस. मीना, निदेशक

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 अगस्त 2008

सं. 2(4)/2007-का. I--राष्ट्रपति जी ने श्री शंकर अग्रवाल, आईएएस (उ.प्र.:1980) को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी



मंत्रालय में दिनांक 20.08.2008 के पूर्वाह्न से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 18,400-500-22,400/- रुपये के वेतनमान में संयुक्त सचिव नियुक्त किया है।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 अगस्त 2008

सं. 5368/एनआईसी/2008-प्रशासन-II--महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र एलव्हारा, श्री धनुषिल्लै, (कर्मचारी कोड सं. 5368) का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र मुख्यालय, नई दिल्ली, से वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-ग्रेड "एस बी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 12 अगस्त, 2008 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

पी. एस. पिल्लै, उपनिदेशक (प्रशासन-II)

(छाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 अगस्त 2008

सं. 1-30/2008-एसबीजी--श्री टी. पनीरसेलवम (भारतीय डाक सेवा-1981), पोस्टमास्टर जनरल, मदुरै, तमिलनाडु सर्किल का 04.07.2008 को रात्रि 00.00 बजे निधन हो गया है।

बी. पी. पंत, सहायक महानिदेशक (एसजीपी)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 अगस्त 2008

सं. 2-1/2008-प्रशासन--राष्ट्रपति, डाक विभाग की केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक, श्री जगदेव सिंह को इसी विभाग में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यभार करने की तारीख से 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में 31.12.2008 तक अथवा जब तक नियमित अधिकारी उपलब्ध हों अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उपरोक्त नियुक्ति अधिकारी को ग्रेड में अनिश्चित अवधि तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारी की चयन सूची में शामिल होने या सीएसएस के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने के लिए कोई अधिकार नहीं प्रदान करेगी।

महेश्वर दास, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 2008

सं. ई(बी)III-2008/आएन/19--रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में स्थायी समाहन होने के परिणामस्वरूप, श्री आर. के. मित्रा, व.प्र.ग्रे./भा.रे.से. ने 26.05.2008 (अपराह्न) से रेल सेवा से त्याग पत्र दे दिया है।

यह इस मंत्रालय की 21.07.2008 की पूर्व समसंख्यक अधिसूचना के अंतर्विष्ट ओदेशों के अधिक्रमण में जारी किया जा रहा है।

मैथ्यू जॉन, सचिव, रेलवे बोर्ड और पदेन अपर सचिव

दिनांक 20 अगस्त 2008

सं. ई.आर.बी.-I/2007/3/9--श्री चन्द्रमोहन, सहायक (वेतनमान 6,500--10,500/- रुपये), रेलवे बोर्ड को 21.07.2008 के पूर्वाह्न से प्रतिनियुक्ति के आधार पर रेलवे बोर्ड में 6,500--10,500/- रुपये के ग्रेड में सहायक यातायात लागत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

मैथ्यू जॉन, सचिव, रेलवे बोर्ड

सं. ई.आर.बी.-I/2008/3/10--श्री अजय कक्काड़, एस एस ई/टी आर डी/ नागपुर, द.पू.म. रेल, जो वर्तमान में निरीक्षक/बिजली/रेलवे बोर्ड (वेतनमान 7,450--11,500/- रुपये) के रूप में कार्यरत हैं, को 28.07.2008 के पूर्वाह्न से 7,500--12,000/- रुपये के ग्रेड में रेलवे बोर्ड बिजली ऊर्जा प्रबंधन सेल में सहायक बिजली इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया जाता है।

मैथ्यू जॉन, सचिव, रेलवे बोर्ड

दिनांक 21 अगस्त 2008

सं. ई.आर.बी.-I/2007/14/2--रेलवे बोर्ड सचिवालय आनुसंधानिकीय सेवा (आर बी एस एस एस) को निजी सहायक (वेतनमान 6,500--10,500/- रुपये) श्रीमती एस मुथामिजसेल्वी को 04.08.2008 के पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर आर बी एस एस एस के निजी सचिव के रूप में पदोन्नत किया गया है।

मैथ्यू जॉन, सचिव, रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 20 अगस्त 2008

सं. 2003/(जी आर)I/32/1--राष्ट्रपति जी, 26.03.2007 से भारतीय रेल कार्मिक सेवा में श्री टी. डी. दिनाकर को सहर्ष नियुक्त करते हैं।

ममता कांडवरा, उप निदे. स्था. (जी आर), रेलवे बोर्ड

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्रालय

(पोत-परिवहन-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 अगस्त 2008

सं. ए-12026/3/07-एम ए--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय बचत संस्थान, नागपुर में क्षेत्रीय निदेशक(वरिष्ठ) के पद पर कार्य कर रहे श्री दीपक वर्मा को, प्रतिनियुक्ति के आधार पर, नौवहन महानिदेशालय में 31.07.2008 (पूर्वाह्न) से, अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में उप नौवहन महानिदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

रघुनाथ त्रिपाठी, उप सचिव

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, 18 अगस्त 2008

सं. ए-32013/3/2003-ई-II--श्री वीरेंद्र कुमार, कार्यपालक अभियंता (सिविल) द्वारा दायर ओ.ए. सं.-2526/2005 में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान खंडपीठ, नई दिल्ली के दिनांक 16.04.2007 के निर्णय और संघ लोक सेवा आयोग में हुई डोपीसी के अनुसरण में, राष्ट्रपति, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग में केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' के निम्नलिखित कार्यपालक अभियंताओं (सिविल) को पुराने भर्ती नियमों, 1995 यथा संशोधित 1997 के आधार पर 12,000-375-16,500/- रुपए के वेतनमान में नियमित आधार पर उनके नाम के सामने उल्लिखित तिथि से अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्त करते हैं। वे वेतन एवं भत्तों की बकाया राशि को छोड़कर सभी परिणामी लाभ के हकदार हैं :-

क्रम सं.	पदधारका का नाम	पदोन्नति की तारीख
	श्रीमती/श्री	
1.	बी. के. राजावत	01-05-2002
2.	टी. टी. नेगी	01-07-2002
3.	सुदीप चौधरी	26-08-2002
4.	राजीव सिंह	23-12-2002
5.	ओ. पी. श्रीवास्तव	27-01-2003
6.	डी. के. शर्मा	17-03-2003
7.	अश्विनी कुमार	09-03-2003
8.	एस. सी. मंडल	09-03-2003
9.	संजीव कुमार	09-12-2003
10.	अतुल कुमार	09-12-2003
11.	आलोक दिपांकर	09-12-2003
12.	ए. के. पाण्डेय	09-02-2004

2. इस विषय पर यह पिछले सभी आदेशों का अधीक्षण करता है।

डी. आर. के. अग्रवाल, उप सचिव

नई दिल्ली, 14 अगस्त 2008

सं. ए-12022/1/2008-ई-I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31-07-2008 के आदेश सं. 5/1/2008-सीएस-1 (डेस्क) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग में अनुभाग अधिकारी श्री ए. वी. आर. पिल्लै को पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) में दिनांक 01-08-2008 (पूर्वाह्न) से 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

पूर्णमा राजेंद्रन, अवर सचिव

दिनांक 20 अगस्त 2008

सं. ए. 12025/2/2005-ई.2--राष्ट्रपति, श्री अनुराग श्रीवास्तव को, पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग, नई दिल्ली, में दिनांक 11.08.2008 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रुपए 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' के सहायक कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर नियुक्त करते हैं।

पूर्णमा राजेंद्रन, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 अगस्त 2008

सं. ए. 32013/06/06-एफ(ए)--राष्ट्रपति, उप निदेशक वर्ग के अधिकारी श्री एम. एस. मथियालगन (8,000-275-14,500/-) को दिनांक 10 अलाई 2008 (पूर्वाह्न) से फिल्म प्रभाग में निदेशक वर्ग (10,000-325-15,200/-) में प्रोन्नत करती हैं।

अमिताभ कुमार, निदेशक

## PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 19th August 2008

No. A. 22017/1/2008-PMA.—Shri Arun Kumar, Private Secretary of AFHQ Stenographers' Service and appointed as Private Secretary on the personal staff of Prime Minister, has relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of 19th August 2008.

P. K. ROY, Dy. Secy.

## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 21st August 2008

No RS/3/8(1)/2008/54-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Neeraj Tewari, Security Officer in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Assistant Director (Security) in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on regular basis in that Secretariat with effect from the forenoon of the 21st August, 2008, until further orders.

C. B. RAI, Jt. Director

No RS/4/5(1)/2008/55-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Nitin Pratap Singh as a temporary Junior Parliamentary Interpreter (Punjabi) in the Rajya Sabha Secretariat, in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- plus usual allowances admissible under the rules, with effect from the forenoon of the 21st August, 2008, until further orders.

C. B. RAI, Jt. Director

The 22nd August 2008

No RS/3/1/1/2008/56-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Rajendra Prasad Shukla, Executive Officer in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Assistant Director on regular basis in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in that Secretariat with effect from the forenoon of the 22nd August, 2008, until further orders.

2. The above appointment would be subject to the orders of the Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

C. B. RAI, Jt. Director

## DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560094, the 11th August 2008

No. 3/1(1)/2008-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Officers to the posts mentioned against each in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an

officiating capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each until further orders :—

Sl. No.	Name	Post to which promoted	Date of Promotion
	Shri/Smt./Kum.		
1.	Livingston Knox. T	Senior Purchase & Stores Officer	19.05.2008
2.	K. Rajasekharan	Senior Accounts Officer	01.07.2008

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 3/1(2)/2008-I.—Consequent on attaining the age of Superannuation the following Scientists/Engineers in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space have relinquished the charge of the post mentioned against each with effect from the afternoon of the 31.05.2008 :—

Sl. No.	Name	Post
	Shri/Smt./Kum.	
1.	M. Muruganandam	Scientist/Engineer-H
2.	P. M. Ravindranadhan Nair	Scientist/Engineer-SF
3.	V. Surendra Panicker	Scientist/Engineer-SD
4.	Mohan Das K	Scientist/Engineer-SD

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 3/1(2)/2008-I.—The President is pleased to accept resignation from service of the following Scientists/Engineers-SC in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Date of Resignation
	Shri/Smt./Kum.	
1.	Ruchi Rani	02.07.2008
2.	Shweta Agarwal	04.07.2008
3.	Rakesh Agarwal	04.07.2008
4.	Nikhil Krishnan	10.07.2008
5.	Arun. G	18.07.2008

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 4/1(2)/2008-I.—Consequent on attaining the age of Superannuation Shri Prasada Rao DSRV, Scientists/Engineers-SE in the Satish Dhawan Space Centre, SHAR, Sriharikota

of the Department of Space has relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of 31.05.2008 :—

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 11/1(1)/2008-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SD as Scientists/Engineers-SE in the CMD/ISRO HQ, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.07.2008 and until further orders :—

Sl. No.	Name
	Shri/Smt./Kum.
1.	Tarun Kanti Barman
2.	P. S. Kumaraswamy

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 8th August 2008

No. 14016/1/2008-UTS-II.—Under Clause (c) of Sub-rule (2) of Rule 7, read with Sub-rule (1) of Rule 10 of the NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli (Police Service) Rules, 2003, the Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs has appointed the following Inspectors of Delhi Police to the Entry Grade of NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Police Service (DANIPS) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on probation for a period of two years with immediate effect :—

Sl. No.	Name of the officer	Range No.	Date of Birth
	(S/Shri)		
1.	Tejpal Singh	D-I/335	01.12.1948
2.	Avtar Singh Parmar	D-I/486	02.02.1950
3.	Jagbir Singh	D-I/489	02.02.1952
4.	Vijender Singh Pundir	D-I/565	05.01.1954
5.	Summer Singh	D-I/595	22.03.1951
6.	Dev Raj (SC)	D-I/676	01.07.1951

2. The appointment of the above mentioned 6 Inspectors into Entry Grade of DANIPS would be subject to the outcome of CWP No. 4210/2007-Jagdish Chand Vs. Union of India and Anr. and CWP No. 11356-62/2006-J.K. Jain & Ors. Vs UOI & Ors. in the Hon'ble High Court of Delhi.

J. K. SINGH, Desk Officer

New Delhi-1, the 20th August 2008

No. 14046/10/2000-UTS.I.—The President is pleased to permit Shri Prakash Kumar, an IAS officer of 1985 Batch of Joint Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories Cadre, to retire from service voluntarily with effect from the afternoon of 22nd August, 2008 in accordance with Rule 16(2A) of the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958.

BALDEV RAJ, Under Secy.

New Delhi, the 22nd August 2008

No. 14011/1/2006-SR (Part).—In continuation of this Ministry's notification of even number dated 18.1.2008, sanction is hereby accorded for extension of the period of deputation of Shri K. N. Manjunatha, Deputy Director in the Army Head Quarters, New Delhi as Deputy Secretary, Zonal Council Secretariat, Ministry of Home Affairs, New Delhi for a period of one month from 1.7.2008 to 31.7.2008.

SUMITA MUKHERJEE, Director

New Delhi-110001, the 26th August 2008

No. 1-18011/5/2008-IPS.IV.—In exercise of the powers conferred by Rule-3A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service the following members of the Indian Police Service borne on the cadre of AGMUT with effect from the dates mentioned against their names :—

S. No.	Name of the Officer	Date of Confirmation
	S/Shri	
1.	Shri P. Karunakaran, IPS (AGMUT : 2004)	06.09.2006
2.	Shri N. Gnanasambandan, IPS (AGMUT : 2004)	06.09.2006

RAJINDER KUMAR, Section Officer

#### MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

##### (DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 21st August 2008

No. A-32013/1/2008-Ad.I(G).—The President is pleased to appoint Shri Yatendra Kumar, IAS (MT-96), as Deputy Secretary in Department of Personnel and Training, with effect from the forenoon of 28th July, 2008 for the balance period of his tenure, i.e. upto 26.07.2010, or until further orders whichever is earlier.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

New Delhi, the 22nd August 2008

No. 39019/04/2008-Estt.(B).—The President is pleased to appoint Shri Prashanta Kumar Mishra, as Member, Union Public Service Commission with effect from the forenoon of 18th August, 2008.

Smt. SATI MOHANDAS, Under Secy.

No. 3901902/2007-Estt.(B).—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri Subir Dutta, has demitted the office of Chairman, Union Public Service Commission with effect from the forenoon of 16th August, 2008.

Smt. SATI MOHANDAS, Under Secy.

New Delhi, the 25th August 2008

No. 14012/09/2005-AIS-III.—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the India Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service born on the State Cadre of West Bengal with effect from the dates shown against them :—

Sl. No.	Name of the officer	Batch	Date of confirmation
1.	Ms. Manmeet Nanda	2000	14.12.2003
2.	Shri Asvini Kumar Yadav	2001	2.9.2003
3.	Shri Salim. P.B.	2001	2.9.2003

G. C. PANDEY, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS  
OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 19th August 2008

No. D-III/460/CF-05/08.—The President of India is pleased to recognise the appointment of Mr. G. G. Dalmia as Honorary Consul of Mongolia in Kolkata with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. G. G. Dalmia comprises the State of West Bengal.

D. K. SHARMA, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE  
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 20th August 2008

No. A. 22011/1/2008-Admn. IA.—The President is pleased to appoint Shri Rohit Kumar Parmar (IES), a Non-Functional Selection Grade Officer of IES, as Additional Economic

Adviser in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- with effect from the forenoon of 18th July, 2008 and until further orders.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES)

New Delhi, the 11th August 2008

No. 13/5/2003-DRT.—Shri K. P. John, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Ernakulam, will demit the charge of Presiding Officer with effect from 10th August, 2008 (A.N).

In exercise of powers conferred by Sub-Section (2) of Section 4 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government, hereby, authorizes Shri V. S. Ravi, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-I, Chennai, to discharge the functions of Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Ernakulam, in addition to his own charge.

V. P. BHARDWAJ, Director

The 12th August 2008

No. A-19012/12/2006-DRT.—In exercise of powers conferred by Sub-Section (2) of Section 4 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government, hereby, authorizes Shri D. Stanley David, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Madurai, to discharge the functions of Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Coimbatore, in addition to his own charge during the period of 2 months w.e.f. 4.8.2008.

V. P. BHARDWAJ, Director

No. 13/9/2003-DRT.—Shri Chandan Kumar Lahiri, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Allahabad, will demit the charge of Presiding Officer with effect from 31st August, 2008 (A.N).

In exercise of powers conferred by Sub-Section (2) of Section 4 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government, hereby, authorizes Shri A. K. Tripathi, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-II, Delhi, to discharge the functions of Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Allahabad, in addition to his own charge.

V. P. BHARDWAJ, Director

New Delhi, the 15th July 2008

No. A-19014/10/2008-DRT.—The Central Government is pleased to appoint Dr. O. A. Bedekar, Section Officer, Ministry of Defence, to the post of Recovery Officer in the

India, Mumbai Base to retire from Government Service on attaining the age of superannuation on 31.07.2008 A.N.

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

New Delhi, the 19th August 2008

No. A-19011/245/91-E.V-Admn. I.—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Dr. A. B. Negi as Joint Commissioner (AH) in the scale of Rs. 14,300-400-18,300/-, for a further period of six months from 03.04.2008 to 02.10.2008 or till further orders, whichever is earlier.

P. L. MEENA, Under Secy.

#### MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

New Delhi-I, the 21st August 2008

No. 16011/2/2002-SCD-IV.—In terms of article 56 of the Article of Association of National Scheduled Caste Finance & Development Corporation, the President is pleased to appoint Shri P. K. Sinha, in his capacity as Additional Secretary & Financial Adviser, Ministry of Social Justice & Empowerment as Official Director on the Board of Directors of National Scheduled Caste Finance & Development Corporation, in place of Shri Sanjiv Kumar Mittal with immediate effect and until further orders.

R. S. MEENA, Director

No. 16011/2/2002-SCD-IV.—In partial modification of this Ministry's notification No. 16011/2/2002-SCD-IV dated 04.03.2008 the President is pleased to appoint Shri L. K. Meena, Deputy Secretary as Official Director, in place of Shri D. P. Bhardwaj, Deputy Secretary, on the Board of Directors of National Scheduled Caste Finance and Development Corporation (NSFDC) with immediate effect and till further orders.

R. S. MEENA, Director

The 25th August 2008

#### CORRIGENDUM

No. 16011/2/2002-SCD-IV.—In partial modification of this Ministry's notification No. 16011/2/2002-SCD-IV dated 21.08.2008, 'Shri L. K. Meena, Deputy Secretary' mentioned in the third line may be read as 'Shri L. K. Meena, Deputy Secretary, Deptt. of Financial Services, Ministry of Finance'.

R. S. MEENA, Director

#### MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 20th August 2008

No. 2(4)/2007-P.I.—The President is pleased to appoint Shri Shankar Aggarwal, IAS (UP : 1980) as Joint Secretary.

Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- with effect from the forenoon of 20.08.2008 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

GIRISH SAHAI, Dy. Director

#### NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 12th August 2008

No. 5368/NIC/2008-Adm. II.—The Director General, NIC is pleased to accept the resignation of Sh. K. Thanupillai, (Emp. Code No. 5368), from the post of Scientific Officer/Engineer Gr. 'SB', National Informatics Centre-Headquarters, New Delhi, with effect from the afternoon of 12.8.2008 and he is relieved of his duties from the same day.

P. S. PILLAI, Dy. Director (Adm. II)

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 18th August 2008

No. 1-30/2008-SPG.—Sh. T. Paneerselvam (IPoS-1981), Postmaster General, Madurai, Tamil Nadu Circle has expired on 04.07.2008 midnight 00.00 hrs.

B. P. PANT, Asstt. Director General (SGP)

New Delhi-110001, the 18th August 2008

No. 2-1/2008-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Jagdev Singh, Assistant of the Central Secretariat Service of Department of Posts as Section Officer in the same Deptt. on ad-hoc basis upto 31.12.2008 or till regular officers become available or till further orders, whichever is earlier, in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, with effect from the date of his taking over charge of the post of Section Officer.

2. The above appointment will not confer any right on the officer to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers grade of CSS.

BHAGWAN DAS, Asstt. Director General (Admn.)

#### MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 19th August 2008

No. E.(O)II-2008/RN/19.—Consequent upon his permanent absorption in Rail Tel Corporation of India Limited, Shri R. K. Mitra, SAG/IRAS has resigned from Railway Service with effect from 26.5.2008 (AN).

This issues in supersession of orders contained in this Ministry's earlier Notification of even number dated 21.7.2008.

MATHEW JOHN, Secy.  
Railway Board & Ex-Officio Addl. Secy.

The 20th August 2008

No. ERB-I/2007/3/9.—Shri Chander Mohan, Assistant (Scale Rs. 6,500—10,500/-), Railway Board is appointed as Assistant Traffic Costing Officer in Grade of Rs. 6,500—10,500/- in Railway Board on deputation basis with effect from the forenoon of 21.07.08.

MATHEW JOHN, Secy.  
Railway Board

No. ERB-I/2008/3/10.—Shri Ajay Kakkar SSE/TRD/NGP, SEC Railway, presently working as Inspector/Electrical/Railway Board (Scale Rs. 7,450—11,500/-) is appointed as Assistant Electrical Engineer in Grade Rs. 7,500—12,000/- in Electrical Energy Management Cell of Railway Board on deputation basis with effect from the forenoon of 28.07.08.

MATHEW JOHN, Secy.  
Railway Board

The 21st August 2008

No. ERB-I/2007/14/2.—Smt. S. Muthamizhaveli, Personal Assistant (Scale Rs. 6,500—10,500/-), of Railway Board Secretariat Stenographers Service (RBSSS) has been promoted as Private Secretary of RBSSS (Scale of Rs. 6,500—10,500/-) on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 04.08.2008.

MATHEW JOHN, Secy.  
Railway Board

New Delhi, the 20th August 2008

No. 2002/E(GR)/32/1.—The President is pleased to appoint Shri T. D. Dinakar in the Indian Railway Personnel Service with effect from 26.3.2007.

MAMTA KANDWAL, Dy. Director Estt (GR)  
Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND  
HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF SHIPPING)

New Delhi, the 18th August 2008

No. A-12026/3/07-MA.—The President is pleased to appoint Shri Deepak Verma, Regional Director (Sr.), in the National Savings Institute, Nagpur, as Deputy Director General of Shipping in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- in the Directorate General of Shipping, Mumbai, on

deputation basis for a period of five years with effect from 31.7.2008 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

R. N. TRIPATHY, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

New Delhi, the 18th August 2008

No. A-32013/3/2003-E-II.—In pursuance of the Hon'ble Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi Judgement dated 16.04.2007 in O.A. No. 2526/2005 filed by Shri Veerendra Kumar, Executive Engineer (Civil), and in pursuance of the DPC held in the UPSC, New Delhi, the President is pleased to appoint the following Executive Engineers (Civil) of the Central Engineering Services (Roads) Group 'A' in the Department of Road Transport & Highways, as Superintending Engineer (Civil), in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/-, w.e.f. the dates mentioned against each, on regular basis on the basis of old Recruitment Rules of 1995 as amended in 1997. They are entitled to all consequential benefits except arrears of pay and allowances :—

Sl. No.	Name of the incumbent	Date from which promoted
	S/Shri	
1.	V. K. Rajawat	01.05.2002
2.	T. T. Negi	01.07.2002
3.	Sudip Choudhury	26.08.2002
4.	Rajeev Singh	23.12.2002
5.	O. P. Srivastava	27.01.2003
6.	D. K. Sharma	17.03.2003
7.	Ashwini Kumar	09.03.2003
8.	S. C. Mondal	09.03.2003
9.	Sanjeev Kumar	09.12.2003
10.	Atul Kumar	09.12.2003
11.	Alok Deepankar	09.12.2003
12.	A. K. Pandey	09.02.2004

2. This supersedes all earlier orders issued on the subject.

Dr. R. K. AGRAWAL, Dy. Secy.

New Delhi, the 14th August 2008

No. A-12022/1/2008-E-I.—In pursuance of Department of Personnel & Training vide Order No. 5/1/2008-CS-I (Desk) dated 31.7.2008, the President is pleased to appoint

from 1.3.2008 (F/N) for a period of two years which is liable to be extended at the discretion of the competent authority (.)

J. S. RAWAT, Director (Admn.)

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND  
PUBLIC DISTRIBUTION**

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 22nd August 2008

No. A-12011/2/2008-Est.—In pursuance of DOP&T's O.M. No. 9/5/2008-EO (MM-I) dated 16th July, 2008, the President is pleased to appoint Shri Brij Mohan, IA & AS (1995) as Deputy Secretary in the Department of Consumer Affairs in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from the forenoon of 6.8.2008 for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

S. L. VASHISHTA, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 7th August 2008

No. A-11013/3/2004-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Dinanath Pandey, IAS (GJ : 85) as Private Secretary to the Minister of State (Consumer Affairs, Food & Public Distribution) (Shri Taslimuddin) at the level of Director in the pay scale of Rs. 15,100-400-18,300/- for a period of five years w.e.f. the forenoon of 5th August, 2008 on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as Private Secretary to Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

KULDEEP KUMAR, Under Secy.

The 12th August 2008

No. A-32013/2/2008-E.I.—The President is pleased to appoint Shri M. Jayaraman, a regular Under Secretary of CSS as Deputy Secretary (ad-hoc) in the Department of Food & Public Distribution w.e.f. the forenoon of 30th July 2008 in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/-.

KULDEEP KUMAR, Under Secy.

**MINISTRY OF EARTH SCIENCES**

New Delhi-110003, the 21st August 2008

No. MoES/11/4/2006-Est.—In pursuance of Ministry of Home Affairs Notification No. 14046/10/2000-UTS.I dated 20th August, 2008, Shri Prakash Kumar, IAS, AGMUT (1985), Joint Secretary in this Ministry shall stand retired from Government service voluntarily with effect from the afternoon of 22nd August, 2008 in accordance with Rule 16(2) (A) of the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958.

KRISHAN KUMAR, Under Secy.

**MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS**

New Delhi-110003, the 12th August 2008

No. A-12012/12/2003-P.II (.)—The President is pleased to appoint Shri Suresh Prasad Choubey as Director (O.L.) in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- in the Ministry of Environment and Forests with effect from the forenoon of 1st August, 2008.

PREMA MOHAN, Under Secy.

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

New Delhi-110011, the 13th August 2008

No. A-12025/24/2007-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Dheeraj Gupta to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of 21.11.2007 until further orders. Dr. Dheeraj Gupta is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi. Dr. Dheeraj Gupta shall be on probation for two years.

MAYA PRAKASH, Under Secy.

New Delhi, the 14th August 2008

No. A-12025/21/2007-CHS.IV.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Monica Chaudhary to the post of Specialist Grade-II (Microbiology) in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Non-Teaching Specialist sub-cadre of Central Health Service, on probation for a period of one year w.e.f. the forenoon of the 28th September, 2007, until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

The 26th August 2008

No. A-12025/40/2006-CHS.III.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Jyoti Kumar to the post of Assistant Professor in the speciality of Radio Diagnosis in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- on probation for a period of one year with effect from the forenoon of the 21st March, 2007 and until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

New Delhi, the 18th August 2008

No. A-32012/2/07-CHS.VI.—Consequent on his promotion as Staff Surgeon (Dental) vide Order of even number, dated the 11th March, 2008, Dr. Debipada Kabi posted in Safdarjung Hospital, has relinquished charge of the post of Junior Staff



Surgeon (Dental) (Rs. 10,000-325-15,200/-) w.e.f. 1.11.2007 (AN) and assumed charge of the post of Staff Surgeon (Dental) in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from 2.11.2007 (FN).

PAWAN KUMAR, Under Secy.

(DEPARTMENT OF HEALTH & FW)

New Delhi, the 13th August 2008

No. A-19014/14/08-E.I.—Consequent upon his promotion to Grade-I (Under Secretary) of CSS on an-hoc basis vide Department of Personnel & Training's Order No. 5/01/2008-CS-I (Desk) dated 10th April, 2008, the President is pleased to appoint Sh. Manoj Kumar Mishra, Section Officer of CSS as Under Secretary in the Department of Health & FW, purely on ad-hoc basis w.e.f. forenoon of 7th July, 2008 and until further orders.

2. The ad-hoc promotion is subject to the following condition :—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select list for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I.
- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) The officer who have not completed/undergone level 'D' Training of the C.S.S. shall require to undergo and successfully complete the level 'D' Training within a period of two years.
- (v) The aforesaid appointment shall further be subject to the order, dated 11.01.2007 of the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in M.A. No. 2170/2006, O.A. No. 2793/2005, M.A. No. 2710/2005.

ARVIND KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE  
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 22nd July 2008

No. 19011/421/2002-E.II/E.V.—Consequent upon his promotion from Senior Time Scale (STS) of Indian Statistical Service (ISS) to Junior Administrative Grade (JAG) on ad-hoc basis, the President is pleased to appoint Shri A. K. Ojha to the post of Joint Director (Agri. Census) in the pay scale of Rs. 12,000—16,500/- in this Department from the Forenoon of 27.06.2008.

K. SANJAYAN, Under Secy.

New Delhi, the 6th August 2008

No. A. 19012/5/2002-E.A.—The President is pleased to appoint Shri P. N. Asari, a Senior Administrative Grade

(SAG) level officer of Indian Economic Service (IES), to the post of Adviser, in the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, in the pay scale of Rs. 18,400—22,400/-, with effect from the forenoon of 16th July, 2008.

D. K. ROY, Under Secy.

New Delhi, the 19th August 2008

No. 6-1/2003-INM-A.—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri R. P. Singh, a Junior Scientific Officer, RCOF, Imphal in the scale of pay of Rs. 6,500—10,000/- to the post of Assistant Director (old name Asstt. Microbiologist) in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- (General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial) under the National Centre of Organic Farming (old name National Bio-fertilizer Development Centre) Ghaziabad for a period of six months w.e.f. 3.8.2008 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

B. J. BHATTACHARYA, Under Secy.

HORTICULTURE DIVISION

New Delhi, the 25th August 2008

No. 20-16/2007-Hort. IV.—The President is pleased to extend the deputation tenure of Smt. P. Premja to the post of Research Officer in the pay scale of Rs. 8,000—13,500/- in the Directorate of Arecanut & Spices Development, Calicut under the Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture for a period of three months in the 5th year of the 2nd year in excess of the period in the RR w.e.f. 16.07.2008 to 15.10.2008 or until further orders, whichever is earlier.

D. R. K. RAO, Under Secy.

COMMISSION FOR AGRICULTURE COSTS & PRICES

New Delhi, the 19th August 2008

No. 2-6/2008-Admn.—Consequent upon her promotion to the post of Private Secretary (General Central Service Group 'B' Gazetted), Smt. Nomita Mehta has assumed the charge of the post of Private Secretary in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Commission for Agricultural Costs and Prices on regular basis with effect from the forenoon of 12th August, 2008.

A. K. JENA, Director

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING  
AND FISHERIES)

New Delhi, the 20th August 2008

No. 2-12/2008-Fy. Admn.—The President is pleased to allow Shri K. N. V. Nair, Zonal Director of Fishery Survey of

Debts Recovery Tribunal, Pune on deputation basis, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- for a period of three years w.e.f. 02.06.2008 (F/N) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

The 18th July 2008

No. A-19013/8/2007-DRT.—The Central Government is pleased to appoint Shri O. Venkateswarlu, Assistant Government Counsel, Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice, to the post of Registrar in the Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi on deputation basis, in the pay scale of Rs. 12,750-375-16,500/- for a period of three years w.e.f. 20.12.2007 (A/N) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

The 29th July 2008

No. A-15012/5/2007-DRT.—In exercise of the powers conferred by Section 9 read with Section 11 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central government hereby appoints Justice Jatinder Mohan Malik, Judge (Retired), Delhi High Court, as Chairperson of Debts Recovery Appellate Tribunal Allahabad, for a period of five years, with effect from 21st July, 2008 (F.N.) or till he attains the age of 65 years, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

The 14th July 2008

#### CORRIGENDUM

No. 13/5/2003-DRT.—In the Notification No. 13/5/2003-DRT dated 11th August, 2008 in respect of Shri K. P. John, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Ernakulam, the date '10th August, 2008 (A.N)' in the second line may be read as '11th August, 2008 (A.N).'

A. THOMAS, Under Secy.

#### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)

New Delhi, the 29th February 2008

No. A-19012/626/84-E.I.—On attaining the age of superannuation, Shri Varghese Mathai, a regular Grade I officer of Central Secretariat Service (CSS) (Grade I : SL-2002), and working as Under Secretary in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, shall stand retired from Government service, with effect from the afternoon of 29th February, 2008.

P. BHARDWAJ, Under Secy.

The 10th March 2008

No. A-19011/721/2008-E.I.—The President is pleased to appoint Shri D. R. S. Chaudhary, IAS (MP : 77) as Additional Secretary and Financial Adviser in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, with effect from the forenoon of 1st March 2008, until further orders.

P. BHARDWAJ, Under Secy.

The 23rd May 2008

No. A-19012/868/91-E.I.—The President is pleased to permit Shri Johnson Samuel a regular Section Officer in the Central Secretariat Service cadre of the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, (Select List Year-1990 {Rank No. 36} Departmental Examination Quota) to retire voluntarily from Government service, with effect from the forenoon of 01.01.2008.

P. BHARDWAJ, Under Secy.

The 4th June 2008

No. A-12023/04/2006-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Daniel E. Richards, a regular Grade I officer of CSS (Under Secretary-SL : 99) in the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, as Deputy Secretary (Selection Grade of CSS) on ad-hoc basis, in the Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce and Industry, with effect from the forenoon of 2nd June, 2008.

The ad-hoc promotion of the officer to the Selection Grade of CSS shall not confer any right on the officer to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade, which is further subject to the conditions laid down in Department of Personnel & Training's order No. 4/04/2008-CS.I (D) dated 14th May, 2008.

P. BHARDWAJ, Under Secy.

The 8th July 2008

No. A-22012/1/2008-E.I.—The President is pleased to appoint the following Principal Private Secretaries of Central Secretariat Stenographers Service cadre as Senior Principal Private Secretary in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry in the scale of pay of Rs. 12,000—16,500/- on purely ad-hoc basis, with effect from 1.7.2008 to 31.12.2008 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier :—

1. Shri L. N. Bajaj
2. Shri Rattan Singh

2. The promotion of the officers to the grade of Senior Principal Private Secretary is purely on ad hoc basis and

shall not confer any right on the officers to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the grade of Senior Principal Private Secretary.

P. BHARDWAJ, Under Secy.

The 31st July 2008

No. A-19011/460/94-E.I.—On attaining the age of superannuation Shri A. K. Sanghi, a regular Development Officer (Engg.) officiating as Industrial Adviser (Engg.) on ad-hoc basis in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, shall stand retired from Government Service, with effect from the afternoon of 31st July, 2008.

P. BHARDWAJ, Under Secy.

#### MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 19th August 2008

No. 15/2006 (.) F. No. A-46011/9/2007-Est. (.)—On the basis of the recommendation made by the Departmental Promotion Committee and Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Sh. R. N. Wankhede, a regular Costing Officer, to the post of Assistant Director Gr. I (Costing) (Gr. A Gazetted), in the pay scale of Rs. 8,000—13,500/-, on promotion basis, in the Office of the Textile Commissioner, Ministry of Textiles, Mumbai, with effect from 3rd April, 2008 (F/N) (.) He will be on probation from 03.04.2008 (F/N) for a period of two years or till the date of his superannuation, whichever is earlier.

BALBIR SINGH, Under Secy.

The 21st August 2008

No. 14/2008 (.) F. No. A-46011/19/2005-Est. (.)—The President is pleased to appoint Sh. Maheswar Chowdhury, to the post of Assistant Director Gr. I (Non-Technical), Gr. A Gazetted, in the pay scale of Rs. 8,000—13,500/-, in the Office of the Textile Commissioner, Ministry of Textiles, Mumbai, with effect from 12th June, 2008 (F/N) (.) He will be on probation for a period of 2 years from 12.06.2008 (F/N) which is liable to be extended at the discretion of the competent authority.

BALBIR SINGH, Under Secy.

#### OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER

Mumbai-400020, the 11th August 2008

No. 5(13)/2008/Est-I/73.—On the basis of the recommendation made by the Departmental Promotion Committee, the Textile Commissioner is pleased to appoint Shri Krishnan Thakandya a regular Technical Officer to the post of Assistant Director, Gr. II (Technical), in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/-, in the Office of the Textile Commissioner,

Ministry of Textiles, Mumbai, with effect from 1st June, 2007 (F/N), on promotion basis (.) He will be on probation from 1.6.2007 (F/N) for a period of two years which is liable to be extended at the discretion of the competent authority.

J. S. RAWAT, Director (Admn.)

No. 5(13)/2008/Est-I/74.—On the basis of the recommendation made by the Union Public Service Commission, the Textile Commissioner is pleased to appoint Shri Siddheshwar Dombhe, to the post of Assistant Director, Gr. II (Technical), in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/-, in the Office of the Textile Commissioner, Ministry of Textiles, Mumbai, with effect from 3rd October, 2007 (F/N). He will be on probation from 3.10.2007 (F/N) for a period of two years which is liable to be extended at the discretion of the competent authority.

J. S. RAWAT, Director (Admn.)

No. 5(13)/2008/Est-I/75.—On the basis of the recommendation made by the Departmental Promotion Committee, the Textile Commissioner is pleased to appoint Shri Amitva Sinha a regular Technical Officer to the post of Assistant Director, Gr. II (Technical), in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/-, in the Office of the Textile Commissioner, Ministry of Textiles, Mumbai, with effect from 1st February, 2008 (F/N), on promotion basis (.) He will be on probation from 1.2.2008 (F/N) for a period of two years which is liable to be extended at the discretion of the competent authority.

J. S. RAWAT, Director (Admn.)

No. 5(13)/2008/Est-I/76.—On the basis of the recommendation made by the Departmental Promotion Committee, the Textile Commissioner is pleased to appoint Shri S. S. Dahiya a regular Technical Officer to the post of Assistant Director, Gr. II (Technical), in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/-, in the Office of the Textile Commissioner, Ministry of Textiles, Mumbai, with effect from 1st February, 2008 (F/N), on promotion basis (.) He will be on probation from 1.2.2008 (F/N) for a period of two years which is liable to be extended at the discretion of the competent authority.

J. S. RAWAT, Director (Admn.)

No. 5(13)/2008/Est-I/77.—On the basis of the recommendation made by the Departmental Promotion Committee, the Textile Commissioner is pleased to appoint Shri G. Kumaravel a regular Technical Officer to the post of Assistant Director, Gr. II (Technical), in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/-, in the Office of the Textile Commissioner, Ministry of Textiles, Mumbai, with effect from 1st March, 2008 (F/N), on promotion basis (.) He will be on probation

Shri A. V. R. Pillai, Section Officer in Department of Road Transport & Highways as Under Secretary in the Ministry of Shipping, Road Transport & Highways (Department of Road Transport & Highways) in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- w.e.f. 01.08.2008 (F.N.).

POORNIMA RAJENDRAN, Under Secy.

The 20th August 2008

No. A-12025/2/2005-E-II.—The President is pleased to appoint Shri Anurag Srivastava as Assistant Executive Engineer (Mechanical) of Central Engineering Service (Roads) Group 'A' in the Department of Road Transport & Highways,

New Delhi, in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- w.e.f. 11.08.2008 (FN) and until further orders.

POORNIMA RAJENDRAN, Under Secy.

---

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 20th August 2008

No. A-32013/06/06-F (A).—The President is pleased to promote Shri M. M. Mathialagen, an officer in the grade of Deputy Director (Rs. 8,000-275-14,500/-), Films Division to the grade of Director (Rs. 10,000-325-15,200/-) Films Division with effect from the forenoon of 10th July, 2008

AMITABH KUMAR, Director